

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 154] नई दिल्ली, बुधवार, जून 20, 1974/ज्यैष्ठ 30, 1896

No. 154] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 20, 1974/JYAISTHA 30, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

### NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 20th June 1974

**G.S.F. 275(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 189/73-Central Excises, dated the 4th October, 1973, namely,—

In the said notification—

(a) in the Table—

(i) for serial Nos. 4 and 4A and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

“4. Sugar produced in a factory during the period commencing from the 1st day of July, 1974 and ending with the 30th day of September 1974, which is in excess of the quantity of sugar produced during the corresponding period in 1973—Forty rupees per quintal”;

(ii) in the proviso, for the figures, word and letter “1 to 4A”, the figures and word “1 to 4” shall be substituted.

(b) in paragraph 2. in clause (b), for the figures, word and letter “1 to 4A” the figures and word “1 to 4” shall be substituted.

[No. 107/74]

G. S. MAINGI, Under Secy.

**वित्त मंत्रालय**  
(राजस्व और बीमा विभाग)

**अधिसूचना**

**केन्द्रीय उत्पाद शुल्क**

नई दिल्ली, 20 जून, 1974

सांका०नि० 275 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना संख्या 189/73-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 4 अक्तूबर, 1973 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में :—

(क) सारणी में—

(i) क्रम संख्या 4 और 4क तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“4. 1 जुलाई, 1974 से आरम्भ और 30 सितम्बर, 1974 को समाप्त अवधि के दौरान किसी कारखाने में उत्पादित शर्करा जो 1973 में तत्स्थानी अवधि के दौरान उत्पादित शर्करा के परिमाण से अधिव्य में हो—40 रु० प्रतिक्विंटल

(ii) परन्तुक में “1 से 4क तक” अंकों, शब्दों और अक्षर के स्थान पर “1 से 4” अंक और शब्द रखे जाएंगे।

(ख) पैरा 2 में, खण्ड (ख) में, “1 से 4क तक” अंकों, शब्दों और अक्षर के स्थान पर “1 से 4” अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[[सं० 107/74]

जा० एम० मैगी, अवकाश सचिव।